



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246921  
CG-DL-E-01072023-246921

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]  
No. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धि-पत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

मामला सं. ए. डी. (ओआई)-01/2022

विषय : चीन, इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर" (एसएमओएफ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/1/2022-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 5 मई, 2023 को चीन, इंडोनेशिया और कोरिया आरपी में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले अपरिवर्तित सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर '(एसएमओएफ)' के सम्बन्ध में पाटन रोधी जांच में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/1/2022 जारी की है।

- उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों में कुछ मामूली टंकण संबंधी त्रुटियां देखी गईं। इस प्रकार, पिछली अधिसूचना के स्थान पर, जहां तक अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 185, 266 (v) और 266 (x) का संबंध है, अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 185, 266 (v), 266 (x) और तालिका छ 9 को नीचे उल्लिखित के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

3. 5 मई 2023 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/1/2022 के पैराग्राफ 185 और तालिका छ 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है:

"185. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग और समर्थक के वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़े देती है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
<b>क</b>	<b>बिक्रियों की लागत</b>					
1	बिक्रियों की लागत – आवेदक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	105	68	60
2	बिक्रियों की लागत – समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	65	65
3	बिक्रियों की लागत - आवेदक + समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	87	65	63
<b>ख</b>	<b>बिक्री कीमत</b>					
1	बिक्री कीमत – आवेदक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	65	56	54
2	बिक्री कीमत- समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	72	56	55
3	बिक्री कीमत - आवेदक + समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	69	55	56
<b>ग</b>	<b>लाभ/(हानि)</b>					
1	लाभ/(हानि) – आवेदक	रु./एफकेएम	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(407)	(88)	(5)
2	लाभ/(हानि) – समर्थक	रु./एफकेएम	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(25)	(69)	(85)
3	लाभ/(हानि) - आवेदक + समर्थक	रु./एफकेएम	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(160)	(71)	(34)
4	लाभ/(हानि) – आवेदक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(167)	(50)	(13)
5	लाभ/(हानि) – समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(19)	(79)	(32)
6	लाभ/(हानि) - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(95)	(64)	(22)

घ	पीबीआईटी					
1	पीबीआईटी – आवेदक	लाख रु.	***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(118)	(26)	16
2	पीबीआईटी – समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(18)	(77)	(32)
3	पीबीआईटी - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(73)	(49)	(5)
ङ	नकद लाभ					
1	नकद लाभ – आवेदक	लाख रु.	***	(***)	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(63)	0	29
2	नकद लाभ – समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	0	(42)	(11)
3	नकद लाभ - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(40)	(15)	10
च	आरओसीई					
1	आरओसीई – आवेदक	%	***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(134)	(32)	4
2	आरओसीई – समर्थक	%	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(20)	(68)	(60)
3	आरओसीई - आवेदक + समर्थक	%	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(83)	(49)	(8)

तालिका छ 9

4. दिनांक 5 मई 2023 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/1/2022 के पैरा 266 के उप-पैरा (v) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है:

‘(v). **डंपिंग मार्जिन:** चीन पीआर के तीन उत्पादकों अर्थात् फुटांग, फास्टनर ग्रुप और स्टर्लाइट चाइना ने जांच में भाग लिया था। ऐसे निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर, उपर्युक्त तीन निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन सकारात्मक निर्धारित किया गया था। कोरिया आरपी और इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया और एडी नियम, 1995 के नियम 6 (8) के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, इन संबंधित देशों से आयात भी डंप किए गए मूल्यों पर पाया गया।’

5. दिनांक 5 मई 2023 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/1/2022 के पैरा 266 के उप-पैरा (x) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है:

‘(x). **क्षति मार्जिन:** एडी नियम, 1995 के अनुलग्नक-III के अनुसार निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य और एडी नियमों के नियम 17 (3) (बी) के तहत अपेक्षित संबंधित देशों से विषय आयात के पहुंच मूल्य की तुलना करने पर, चीन पीआर से सभी भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक निर्धारित किया गया था। उपरोक्त तीन निर्माताओं के अलावा, चीन पीआर के किसी अन्य निर्माता ने भाग नहीं लिया। कोरिया आरपी और इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया और एडी नियम, 1995 के नियम 6 (8) के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, इन विषय देशों से आयात के लिए चोट मार्जिन भी सकारात्मक निर्धारित किया गया था।’

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

## CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

Case No. AD(OI) - 01/2022

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fiber" (SMOF") originating in or exported from China, Indonesia and Korea RP**

**F. No. 6/1/2022-DGTR.**—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Final Findings Notification No. 6/1/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2023 in respect of the Anti-dumping investigation concerning imports of "Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fiber" (SMOF") originating in or exported from China, Indonesia and Korea RP.

2. Few minor typographical errors were noticed in the aforementioned Final Findings. Thus, in supersession the previous notification, insofar as paragraphs 185, 266(v) and 266(x) of the final findings are concerned, **Paragraphs 185, 266(v), 266(x) and Table G9** of the final findings stand substituted as mentioned below.

3. In place of **Paragraph 185 and Table G9** of the Final Findings Notification No. 6/1/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2023, the following stands substituted:

‘185. The following table lays down the figures pertaining to the financial parameters of the domestic industry and the supporter:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
<b>A</b>	<b>COST OF SALES</b>					
<b>1</b>	Cost of sales – Applicant	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	105	68	60
<b>2</b>	Cost of Sales – Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	65	65
<b>3</b>	Cost of sales - Applicant + Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	87	65	63
<b>B</b>	<b>SELLING PRICE</b>					
<b>1</b>	Selling Price – Applicant	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	65	56	54
<b>2</b>	Selling Price- Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	72	56	55
<b>3</b>	Selling Price - Applicant + Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	69	55	56
<b>C</b>	<b>PROFIT/(LOSS)</b>					
<b>1</b>	Profit/(Loss) – Applicant	Rs./FKM	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(407)	(88)	(5)
<b>2</b>	Profit/(Loss) – Supporter	Rs./FKM	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(25)	(69)	(85)
<b>3</b>	Profit/(Loss) - Applicant + Supporter	Rs./FKM	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(160)	(71)	(34)
<b>4</b>	Profit/(Loss) – Applicant	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(167)	(50)	(13)
<b>5</b>	Profit/(Loss) – Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(19)	(79)	(32)
<b>6</b>	Profit/(Loss) - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(95)	(64)	(22)
<b>D</b>	<b>PBIT</b>					
<b>1</b>	PBIT – Applicant	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	***
	Trend	Index	100	(118)	(26)	16
<b>2</b>	PBIT – Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(18)	(77)	(32)
<b>3</b>	PBIT - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	***	***	***

	Trend	Index	100	(73)	(49)	(5)
<b>E</b>	<b>Cash Profits</b>					
<b>1</b>	Cash Profits – Applicant	Rs. Lacs	***	(***)	***	***
	Trend	Index	100	(63)	0	29
<b>2</b>	Cash Profits – Supporter	Rs. Lacs	***	***	(***)	(***)
	Trend	Index	100	0	(42)	(11)
<b>3</b>	Cash Profits - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	***
	Trend	Index	100	(40)	(15)	10
<b>F</b>	<b>ROCE</b>					
<b>1</b>	ROCE – Applicant	%	***	(***)	(***)	***
	Trend	Index	100	(134)	(32)	4
<b>2</b>	ROCE – Supporter	%	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(20)	(68)	(60)
<b>3</b>	ROCE - Applicant + Supporter	%	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(83)	(49)	(8)

Table G9 '

4. In place of **sub-paragraph (v) of Paragraph 266** of the Final Findings Notification No. 6/1/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2023, the following stands substituted:

‘(v). **Dumping margin:** Three producers from China PR namely Futong, Fasten Group and Sterlite China had participated in the investigation. Based on the information provided by such exporters and the constructed normal value, the dumping margins for the above three exporters were determined to be positive. None of the producers from Korea RP and Indonesia participated in the investigation and after considering the facts available on record in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995, imports from these subject countries were also found to be at dumped prices.’

5. In place of **sub-paragraph (x) of Paragraph 266** of the Final Findings Notification No. 6/1/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2023, the following stands substituted:

‘(x). **Injury Margin:** Upon comparison of the non – injurious price determined as per Annexure – III to the AD Rules, 1995 and the landed value of subject imports from the subject countries as required under Rule 17 (3) (b) to the AD Rules, the injury margins for all participating exporters from China PR were determined to be positive. Apart from the above three producers, no other producer from China PR participated. None of the producers from Korea RP and Indonesia participated in the investigation and after considering the facts available on record in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995, the injury margin for imports from these subject countries was also determined to be positive.’

ANANT SWARUP, Designated Authority